

Series P2QRS/2

Set-3

प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code

59/2/3

रोल नं.  
Roll No.

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



## राजनीति विज्ञान

### POLITICAL SCIENCE

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 80

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 23 printed pages.
(II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न हैं।	(II) Please check that this question paper contains 30 questions.
(III) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(III) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।	(IV) Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

12-59/2/3

1

P.T.O.

### सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 12 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 19 से 23 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-I के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 24 से 26 अवतरण, कार्टून तथा मानचित्र-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यथानुसार लिखिए।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 27 से 30 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-II के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 170 से 180 शब्दों में लिखिए।
- (viii) प्रश्न-पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है। यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है। इन प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा जाए।
- (ix) इसके अतिरिक्त, ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए फोटो तथा मानचित्र आदि आधारित प्रश्नों के स्थान पर एक अन्य प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी ही लिखें।

### खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 12 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

12×1=12

प्रश्न संख्या 1 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों (A), (B), (C) और (D) में से उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनिए।

1. अभिकथन (A) : वैश्विक रणनीति में तेल आज भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है।  
कारण (R) : तेल के साथ जुड़ी अपार सम्पदा से राजनीतिक संघर्ष पैदा होते हैं।  
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।  
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।  
(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है।  
(D) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु कारण (R) सही है।



### **General Instructions :**

Read the following instructions very carefully and follow them :

- (i) This question paper contains **30** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) Question paper is divided into **five** sections – **Sections A, B, C, D and E**.
- (iii) **Section A** – questions number **1 to 12** are Multiple Choice type questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – questions number **13 to 18** are Short Answer type questions. Each question carries **2** marks. Write answer to each question in **50 to 60** words.
- (v) **Section C** – questions number **19 to 23** are Long Answer type-I questions. Each question carries **4** marks. Write answer to each question in **100 to 120** words.
- (vi) **Section D** – questions number **24 to 26** are Passage, Cartoon and Map-based questions. Answer each question accordingly.
- (vii) **Section E** – questions number **27 to 30** are Long Answer type-II questions. Each question carries **6** marks. Write answer to each question in **170 to 180** words.
- (viii) There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. Only **one** of the choices in such questions has to be attempted.
- (ix) In addition to this, note that a separate question has been provided for Visually Impaired candidates in lieu of questions having visual inputs, map etc. Such questions are to be attempted by Visually Impaired candidates only.

### **SECTION A**

Questions number **1 to 12** are Multiple Choice type questions, carrying **1** mark each.

$$12 \times 1 = 12$$

For Question number 1, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Read these statements carefully and choose the correct option as the answer from the options (A), (B), (C) and (D) given below.

1. Assertion (A) : Oil continues to be the most important resource in global strategy.
- Reason (R) : The immense wealth associated with oil generates political struggles.
- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
  - (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
  - (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
  - (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

2. सूची I का सूची II से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए :

सूची I	सूची II
1. क्योटो प्रोटोकॉल	(i) विकासात्मक नियमाचार की सूची
2. बिजली अधिनियम 2003, भारत	(ii) पारिस्थितिक तंत्र के प्रति उत्तरदायित्व के साथ आर्थिक वृद्धि
3. एजेन्डा 21	(iii) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य
4. सतत पोषणीय विकास	(iv) नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना

विकल्प :

- (A) 1-(iii), 2-(iv), 3-(i), 4-(ii)  
(B) 1-(ii), 2-(iii), 3-(iv), 4-(i)  
(C) 1-(iv), 2-(i), 3-(iii), 4-(ii)  
(D) 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)

3. वे लोग क्या कहलाते हैं जो अपने घर-बार छोड़ के भाग जाते हैं लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही रहते हैं ?

- (A) भगोड़े  
(B) आप्रवासी  
(C) आन्तरिक रूप से विस्थापित जन  
(D) मूल निवासी

4. 'शक्ति सन्तुलन' में देशों से निम्नलिखित में से किसकी अपेक्षा होती है ?

- (A) विशेष प्रकार के हथियार त्यागने की  
(B) हथियारों को प्राप्त और विकसित करने की प्रक्रिया को नियमित करने की  
(C) सैन्य हमले से रक्षा के लिए अपनी कार्रवाइयों में सहयोग बनाने की  
(D) अन्य देशों के साथ अनुकूल संतुलन बनाने की

5. रूस के कौन-से दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आन्दोलन हुए थे ?

- (A) चेचन्या और अज़रबैजान  
(B) क्रोएशिया और उज़्बेकिस्तान  
(C) चेचन्या और दागिस्तान  
(D) दागिस्तान और क्रोएशिया



2. Match List I with List II and choose the correct option :

<i>List I</i>		<i>List II</i>	
1.	Kyoto Protocol	(i)	List of developmental practices
2.	Electricity Act of 2003, India	(ii)	Economic growth with ecological responsibility
3.	Agenda 21	(iii)	Aims to cut greenhouse gas emissions
4.	Sustainable Development	(iv)	Encourages use of renewable energy

Options :

- (A) 1-(iii), 2-(iv), 3-(i), 4-(ii)  
(B) 1-(ii), 2-(iii), 3-(iv), 4-(i)  
(C) 1-(iv), 2-(i), 3-(iii), 4-(ii)  
(D) 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)
3. People who flee their homes but remain within national borders are called \_\_\_\_\_.
- (A) fugitives  
(B) migrants  
(C) internally displaced people  
(D) indigenous people
4. 'Balance of power' requires countries to \_\_\_\_\_.
- (A) give up certain kinds of weapons  
(B) regulate acquisition and development of weapons  
(C) coordinate their actions to defend against military attack  
(D) maintain a favourable balance with other countries
5. Which two republics of Russia have had violent secessionist movements ?
- (A) Chechnya and Azerbaijan  
(B) Croatia and Uzbekistan  
(C) Chechnya and Dagestan  
(D) Dagestan and Croatia

6. निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए :

- (i) अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण
- (ii) रूस की क्रांति
- (iii) ताज़िकिस्तान में गृहयुद्ध का अन्त
- (iv) बर्लिन की दीवार का गिरना

सही विकल्प चुनिए :

- (A) (i), (ii), (iii), (iv)
- (B) (ii), (i), (iv), (iii)
- (C) (iii), (iv), (i), (ii)
- (D) (iv), (iii), (ii), (i)

7. 'खासी हिल्स' (पहाड़ियाँ) भारत के किस राज्य में स्थित हैं ?

- (A) मेघालय
- (B) मणिपुर
- (C) मिज़ोरम
- (D) त्रिपुरा

8. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था ?

- (A) काहिरा
- (B) बेलग्रेड
- (C) भारत
- (D) इण्डोनेशिया



6. Arrange the following events in the chronological order :

- (i) Soviet invasion of Afghanistan
- (ii) Russian Revolution
- (iii) End of Civil War in Tajikistan
- (iv) Fall of the Berlin Wall

Choose the correct option :

- (A) (i), (ii), (iii), (iv)
- (B) (ii), (i), (iv), (iii)
- (C) (iii), (iv), (i), (ii)
- (D) (iv), (iii), (ii), (i)

7. In which state of India are the 'Khasi Hills' located ?

- (A) Meghalaya
- (B) Manipur
- (C) Mizoram
- (D) Tripura

8. The first summit of NAM was held in :

- (A) Cairo
- (B) Belgrade
- (C) India
- (D) Indonesia

प्रश्न संख्या 9 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों (A), (B), (C) और (D) में से उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनिए।

9. अभिकथन (A) : 1979 में, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने बाहरी लोगों के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व किया।

कारण (R) : आन्दोलन अवैध आप्रवासियों तथा ग़लत मतदाता सूचियों के विरुद्ध था।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है।
- (D) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु कारण (R) सही है।

10. दलाई लामा ने निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक शरण प्राप्त की थी ?

- (A) नेपाल
- (B) भूटान
- (C) भारत
- (D) म्याँमार

11. भारत का निर्वाचन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था ?

- (A) 1949 (B) 1950
- (C) 1951 (D) 1952

12. 1952 में कौन-सी राजनीतिक पार्टी जम्मू और कश्मीर में सत्ता में आई थी ?

- (A) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
- (B) कश्मीर राष्ट्रीय काँग्रेस
- (C) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इन्डिया
- (D) नेशनल कॉन्फेरेंस





For Question number 9, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Read these statements carefully and choose the correct option as the answer from the options (A), (B), (C) and (D) given below.

9. Assertion (A) : In 1979, the All Assam Students' Union (AASU) led an anti-foreigner movement.

Reason (R) : The movement was against illegal migrations and against faulty voters' lists.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

10. In which of the following countries did Dalai Lama obtain political asylum ?

- (A) Nepal
- (B) Bhutan
- (C) India
- (D) Myanmar

11. In which year was the Election Commission of India set up ?

- (A) 1949
- (B) 1950
- (C) 1951
- (D) 1952

12. Which political party came to power in Jammu and Kashmir in 1952 ?

- (A) Indian National Congress
- (B) Kashmir National Congress
- (C) Communist Party of India
- (D) National Conference

### खण्ड ख

13. वैश्विक सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए । 2
14. 1952 में भारत में हुआ आम चुनाव क्यों पूरे विश्व में लोकतन्त्र के इतिहास के लिए मील का एक पत्थर बन गया ? स्पष्ट कीजिए । 2
15. अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने से किस प्रकार भारत ने अपने सुरक्षा हितों की रक्षा की है ? स्पष्ट कीजिए । 2
16. प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई दो विशेषताएँ उजागर कीजिए । 2
17. पूर्वी पाकिस्तान में 1970 के चुनावों में, किस राजनीतिक पार्टी ने किस नेता के नेतृत्व में सभी सीटों पर विजय प्राप्त की थी ? 2
18. भारत में 1989 से 1999 तक बनी गठबंधन की सरकारों की किन्हीं दो कमज़ोरियों का आकलन कीजिए । 2

### खण्ड ग

19. 1962 में भारत पर हुए चीन के आक्रमण के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए । 4
20. सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए । 4
21. (क) भारत और नेपाल के बीच विवाद और तनाव के कोई दो कारण उजागर कीजिए । 4
- अथवा**
- (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कोई दो कारण उजागर कीजिए । 4
22. (क) वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों को उजागर कीजिए । 4
- अथवा**
- (ख) वैश्वीकरण के कोई दो सकारात्मक प्रभाव उजागर कीजिए । 4
23. 1959 के बाद मिज़ोरम में भारत के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिए । 4



## SECTION B

13. Explain the meaning of Global Security. 2
14. Why did India's general elections of 1952 become a landmark in the history of democracy all over the world ? Explain. 2
15. How has the strengthening of international norms and international institutions helped India protect its security interests ? Explain. 2
16. Highlight any two features of the First Five Year Plan. 2
17. Which political party won all the seats in the 1970 elections in East Pakistan and under whose leadership ? 2
18. Assess any two weaknesses of the coalition governments formed in India from 1989 to 1999. 2

## SECTION C

19. Describe any two consequences of Chinese invasion of India in 1962. 4
20. Explain any two causes for the disintegration of the Soviet Union. 4
21. (a) Highlight any two causes of dispute and tension between India and Nepal. 4

**OR**

- (b) Highlight any two causes of conflict between India and Pakistan. 4
22. (a) Highlight any two causes of globalisation. 4

**OR**

- (b) Highlight any two positive effects of globalisation. 4
23. Analyse the causes of armed struggle in Mizoram against India after 1959. 4



### खण्ड घ

24. निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :  $4 \times 1 = 4$

भारत का विचार है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की मुख्य जिम्मेवारी विकसित देशों की है, जिन्होंने एक लम्बे समय तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीनहाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है।

- (i) भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर तथा इसका अनुमोदन कब किया था ?
- (A) अगस्त 2000 (B) अगस्त 2001  
(C) अगस्त 2002 (D) अगस्त 2003
- (ii) कुछ विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई थी ?
- (A) वे पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित करने में अग्रणी थे।  
(B) वे कुछ अन्य देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता कर रहे थे।  
(C) उन्होंने पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा को प्रयोग करने के कार्यक्रम शुरू कर दिए थे।  
(D) ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में उनका योगदान नाममात्र का था।
- (iii) 'पृथ्वी सम्मेलन' कहाँ आयोजित हुआ था ?
- (A) पेरिस (B) रियो डी जनेरियो  
(C) क्योटो (D) माँट्रियल
- (iv) निम्नलिखित में से कौन-सा एक 'वैश्विक सम्पदा' का उदाहरण है ?
- (A) ग्रेट बैरियर रीफ (B) महाखड्ड (ग्रैंड कैनियन)  
(C) बाहरी अंतरिक्ष (D) सहारा मरुस्थल



## SECTION D

24. Read the following passage carefully and answer the questions that follow :

4×1=4

India is of the view that the major responsibility of curbing emission of greenhouse gases rests with the developed countries, which have accumulated emissions over a long period of time. India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world.

- (i) India signed and ratified the Kyoto Protocol in :
- (A) August 2000 (B) August 2001  
(C) August 2002 (D) August 2003
- (ii) Why were some developing countries exempted from the requirements of the Kyoto Protocol ?
- (A) They were pioneers in developing eco-friendly technology.  
(B) They were assisting some other countries to adopt clean technologies.  
(C) They had already launched renewable energy programmes.  
(D) Their contribution to emission of greenhouse gases was insignificant.
- (iii) Where was the 'Earth Summit' held ?
- (A) Paris (B) Rio de Janeiro  
(C) Kyoto (D) Montreal
- (iv) Which one of the following is an example of 'Global Commons' ?
- (A) The Great Barrier Reef (B) The Grand Canyon  
(C) The Outer Space (D) The Sahara Desert

25. भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा-मानचित्र (पृष्ठ 15 पर) में चार राज्यों को (A), (B), (C) तथा (D) के द्वारा अंकित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तर-पुस्तिका में इनके सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी की क्रम-संख्या तथा मानचित्र में दिया गया संबंधित अक्षर, नीचे दी गई तालिका के रूप में लिखिए :


4×1=4

प्रयोग की गई जानकारी की क्रम-संख्या	मानचित्र में दिया गया संबंधित अक्षर	राज्य का नाम
(i)		
(ii)		
(iii)		
(iv)		

- (i) वह राज्य जिससे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का सम्बन्ध था।
- (ii) वह राज्य जिससे पूर्व मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा का सम्बन्ध था।
- (iii) वह राज्य जहाँ 1967 में डीएमके (द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम) पार्टी सत्ता में आई।
- (iv) वह राज्य जहाँ 1967 के विधानसभा चुनावों में काँग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी।



प्रश्न सं. 25 के लिए



12-59/2/3

15

P.T.O.

25. In the given political outline map of **India** (on page 17), four States have been marked as (A), (B), (C) and (D). Identify these States on the basis of the information given below and write their correct names in your answer-book along with the respective serial number of the information used and the concerned alphabets given in the map as per the following format :

4×1=4


Serial number of the information used	Concerned alphabet given in the map	Name of the State
(i)		
(ii)		
(iii)		
(iv)		

- (i) The State to which the former Prime Minister Lal Bahadur Shastri belonged.
- (ii) The State to which former Chief Minister S. Nijalingappa belonged.
- (iii) The State where DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) came to power in 1967.
- (iv) The State where the Congress Party did not get majority in 1967 Assembly elections.





For question no. 25



12-59/2/3

17

P.T.O.

नोट: निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर हैं: 4×1=4

- (25.1) उस राज्य का नाम लिखिए जिससे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का सम्बन्ध था ।
- (25.2) उस राज्य का नाम लिखिए जिससे राजनीतिक पार्टी डीएमके (द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम) का सम्बन्ध है ।
- (25.3) उस राज्य का नाम लिखिए जिससे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सम्बन्ध रखते थे ।
- (25.4) उस राज्य का नाम लिखिए जिससे भारत के पूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरि का सम्बन्ध था ।

26. नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 1+1+2=4



- (i) जनता पार्टी की सरकार को गिराने वाले नेता को पहचानकर उसका नाम लिखिए ।
- (ii) कार्टून में दिखाए गए जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री को पहचान कर उसका नाम लिखिए ।
- (iii) 1980 में जनता पार्टी की हार के कोई दो कारण उजागर कीजिए ।

**Note :** The following questions are for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. 25 :

4×1=4

- (25.1) Name the state to which the former Chief Minister Karpoori Thakur belonged.
- (25.2) Name the state to which the political party DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) belongs.
- (25.3) Name the state to which the former Prime Minister Lal Bahadur Shastri belonged.
- (25.4) Name the state to which the former President of India V.V. Giri belonged.

26. Study the cartoon given below and answer the questions that follow : 1+1+2=4



- (i) Identify and name the leader who toppled the Janata Government.
- (ii) Identify and name the Prime Minister of the Janata Party Government shown in the cartoon.
- (iii) Highlight any two reasons for the defeat of the Janata Party in 1980.

**नोट :** निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर हैं :

2+1+1=4

- (26.1) 1977 के आम चुनावों में काँग्रेस पार्टी की हार के किन्हीं दो कारणों को उजागर कीजिए ।
- (26.2) 1977 के आम चुनावों में विजय प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी का नाम लिखिए ।
- (26.3) 1980 के चुनावों में काँग्रेस पार्टी की जीत से पहले भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखिए ।

### खण्ड ड

27. (क) भारतीय राजनीति में 1989 और उसके बाद घटी किन्हीं चार मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए । 6

#### अथवा

- (ख) भारत की अधिकांश राजनीतिक पार्टियों में उभरी आम सहमति के किन्हीं तीन मुद्दों का वर्णन कीजिए । 6

28. (क) यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले किन्हीं चार कारकों का विश्लेषण कीजिए । 6

#### अथवा

- (ख) “आसियान बहुत तेज़ी से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में बढ़ रहा है ।” कथन को न्यायोचित ठहराइए । 6

29. (क) स्वतंत्रता के तुरन्त बाद भारत के समक्ष आई किन्हीं तीन चुनौतियों का वर्णन कीजिए । 6

#### अथवा

- (ख) मणिपुर देसी रियासत को भारतीय संघ में विलय की ओर ले जाने वाले घटनाक्रम का वर्णन कीजिए । 6



**Note :** The following questions are for the **Visually Impaired Candidates** only, in lieu of Q. No. 26 :

2+1+1=4

(26.1) Highlight any two reasons for the defeat of the Congress Party in the general elections of 1977.

(26.2) Name the political party that won the general elections in 1977.

(26.3) Name the Prime Minister of India when the Congress Party won the elections in 1980.

### SECTION E

27. (a) Describe any four major developments in Indian politics since 1989. 6

**OR**

(b) Describe any three issues on which a general consensus has emerged among most of the political parties of India. 6

28. (a) Analyse any four factors that make the European Union an influential regional organisation. 6

**OR**

(b) "ASEAN is rapidly growing into a very important regional organisation." Justify the statement. 6

29. (a) Describe any three challenges faced by India just after independence. 6

**OR**

(b) Describe the events that lead to the merger of the princely state of Manipur into the Indian Union. 6



30. (क) उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिनके बल पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का दावा करता है । 6
- अथवा**
- (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार लाने के लिए स्वीकृत प्रस्ताव में दर्ज तीन मुख्य शिकायतों की व्याख्या कीजिए । 6



30. (a) Explain the grounds on the basis of which India seeks to become a permanent member of the UN Security Council. 6

**OR**

(b) Explain the three main complaints reflected in the resolution adopted by the UN General Assembly in 1992 to reform the UN Security Council. 6

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

**General Instructions: -**

<b>1</b>	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
<b>2</b>	<b>“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”</b>
<b>3</b>	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. <b>However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-XII, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.</b>
<b>4</b>	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
<b>5</b>	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
<b>6</b>	Evaluators will mark( ✓ ) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. <b>This is most common mistake which evaluators are committing.</b>
<b>7</b>	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
<b>8</b>	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
<b>9</b>	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note <b>“Extra Question”</b> .
<b>10</b>	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
<b>11</b>	A full scale of marks _____80_____ (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.



**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

<b>12</b>	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).
<b>13</b>	<p>Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:- Giving more marks for an answer than assigned to it.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wrong totaling of marks awarded on an answer.</li> <li>● Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.</li> </ul> <p>Wrong question wise totaling on the title page.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.</li> <li>●</li> <li>● Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.</li> <li>● Wrong grand total.</li> <li>● Marks in words and figures not tallying/not same.</li> <li>● Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.</li> <li>● Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)</li> <li>● Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.</li> </ul>
<b>14</b>	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.
<b>15</b>	Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
<b>16</b>	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “ <b>Guidelines for spot Evaluation</b> ” before starting the actual evaluation.
<b>17</b>	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
<b>18</b>	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

SECTION – A		Pg	Mark s	T ot										
Question No. 1 to 12 are Multiple Choice type questions carrying 1 mark each.		12x1=12												
1.	<p><b>Assertion (A):</b> Oil continues to be the most important resource in global strategy  <b>Reason (R):</b> The immense wealth associated with oil generates political struggles  <b>(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).</b>  <b>(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A)</b>  <b>(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.</b>  <b>(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.</b></p>		1											
<b>Ans</b>	(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).	P-93/1	1											
2.	<p><b>Match List I with List II and choose the correct option:</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><b>List I</b></td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><b>List II</b></td> </tr> <tr> <td>1. Kyoto Protocol</td> <td>(i) List of developmental practices</td> </tr> <tr> <td>2. Electricity Act of 2003, India</td> <td>(ii) Economic growth with ecological Responsibility</td> </tr> <tr> <td>3. Agenda 21 emissions</td> <td>(iii) Aims to cut greenhouse gas</td> </tr> <tr> <td>4. Sustainable Development</td> <td>(iv) Encourages use of renewable energy</td> </tr> </table> <p><b>Options</b>  <b>(A) 1-(iii), 2-(iv), 3-(i), 4-(ii)</b>  <b>(B) 1-(ii), 2-(iii), 3-(iv), 4-(i)</b>  <b>(C) 1-(iv), 2-(i), 3-(iii), 4-(ii)</b>  <b>(D) 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)</b></p>	<b>List I</b>	<b>List II</b>	1. Kyoto Protocol	(i) List of developmental practices	2. Electricity Act of 2003, India	(ii) Economic growth with ecological Responsibility	3. Agenda 21 emissions	(iii) Aims to cut greenhouse gas	4. Sustainable Development	(iv) Encourages use of renewable energy		1	
<b>List I</b>	<b>List II</b>													
1. Kyoto Protocol	(i) List of developmental practices													
2. Electricity Act of 2003, India	(ii) Economic growth with ecological Responsibility													
3. Agenda 21 emissions	(iii) Aims to cut greenhouse gas													
4. Sustainable Development	(iv) Encourages use of renewable energy													
<b>Ans</b>	(A) 1-(iii), 2-(iv), 3-(i), 4-(ii)	P-91/1	1											
3.	<p>People who flee their homes but remain within national borders are called _____.</p> <p><b>(A) fugitives</b>  <b>(B) migrants</b>  <b>(C) internally displaced people</b>  <b>(D) indigenous people</b></p>		1											
<b>Ans</b>	(C) internally displaced people	P-74/1	1											
4.	<p>'Balance of power' requires countries to _____</p> <p><b>(A) give up certain kinds of weapons</b>  <b>(B) regulate acquisition and development of weapons</b>  <b>(C) coordinate their actions to defend against military attack</b>  <b>(D) maintain a favourable balance with other countries</b></p>		1											

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

<b>Ans</b>	(D) maintain a favourable balance with other countries	P-66/1	<b>1</b>	
<b>5.</b>	<b>Which two republics of Russia have had violent secessionist movements?</b> <b>(A) Chechnya and Azerbaijan</b> <b>(B) Croatia and Uzbekistan</b> <b>(C) Chechnya and Dagestan</b> <b>(D) Dagestan and Croatia</b>		<b>1</b>	
<b>Ans</b>	(C) Chechnya and Dagestan	P-10/1	<b>1</b>	
<b>6.</b>	<b>Arrange the following events in the chronological order</b> <b>(i) Soviet invasion of Afghanistan</b> <b>(ii) Russian Revolution</b> <b>(iii) End of Civil War in Tajikistan</b> <b>(iv) Fall of the Berlin Wall</b> <b>Choose the correct option:</b> <b>(A) (i), (ii), (iii), (iv)</b> <b>(B)(ii), (i), (iv), (iii)</b> <b>(C) (iii), (iv), (i), (ii)</b> <b>(D) (iv), (iii), (ii), (i)</b>		<b>1</b>	
<b>Ans</b>	(B)(ii), (i), (iv), (iii)	P-2/1	<b>1</b>	
<b>7.</b>	<b>In which state of India are the 'Khasi Hills' located?</b> <b>(A) Meghalaya</b> <b>(B) Manipur</b> <b>(C) Mizoram</b> <b>(D) Tripura</b>		<b>1</b>	
<b>Ans</b>	(A) Meghalaya	P-126/2	<b>1</b>	
<b>8.</b>	<b>The first summit of NAM was held in</b> <b>(A) Cairo</b> <b>(B) Belgrade</b> <b>(C) India</b> <b>(D) Indonesia</b>		<b>1</b>	
<b>Ans</b>	(B) Belgrade	P-88/2	<b>1</b>	
<b>9.</b>	<b>Assertion (A) : In 1979, the All Assam Students' Union (AASU) led an anti-foreigner movement.</b> <b>Reason (R) : The movement was against illegal migrations and against faulty voters' lists.</b> <b>(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).</b>		<b>1</b>	

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

	(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A) (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false. (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.			
<b>Ans</b>	(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).	P-129/2	<b>1</b>	
<b>10.</b>	<b>In which of the following countries did Dalai Lama obtain political asylum?</b> (A) Nepal (B) Bhutan (C) India (D) Myanmar		<b>1</b>	
<b>Ans.</b>	(C) India	P-59/2	<b>1</b>	
<b>11.</b>	<b>In which year was the Election Commission of India set up?</b> (A) 1949 (B) 1950 (C) 1951 (D) 1952		<b>1</b>	
<b>Ans.</b>	(B) 1950	P-27/2	<b>1</b>	
<b>12.</b>	<b>Which political party came to power in Jammu and Kashmir in 1952 ?</b> (A) Indian National Congress (B) Kashmir National Congress (C) Communist Party of India (D) National Conference		<b>1</b>	
<b>Ans.</b>	(D) National Conference	P-31/2	<b>1</b>	
<b>SECTION – B</b>			<b>6 × 2 =</b>	<b>12</b>
<b>13.</b>	<b>Explain the meaning of Global Security.</b>		<b>2</b>	
<b>Ans.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Global security is also known as human security and falls under the category of Non-traditional view of Security.</li> <li>• The concept of global security emerged in the 1990's in response to the global nature of threats such as global warming, international terrorism and health epidemics like AIDS, Bird Flu, and so on.</li> <li>• It is more concerned with the protection of people of states. It considers that the threat agenda should include hunger, disease and natural disasters because these kill far more people than war</li> <li>• It also encompasses economic security and 'threats to human dignity'.</li> <li>• In its broadest formulation it stresses on 'freedom from want' and 'freedom from fear'.</li> <li>• No country can resolve these problems alone and need international cooperation to resolve the problems like genocide, terrorism etc..</li> </ul> (Evaluate as a whole)	P-70-71/1	<b>2</b>	



**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

<b>14.</b>	<b>Why did India's general elections of 1952 become a landmark in the history of democracy all over the world ? Explain.</b>		<b>2</b>	
<b>Ans.</b>	<p>General elections of 1952 became a landmark:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Due to the size of the Indian electorate and the country, the election was unusual. No election on this scale had ever been conducted in the world before.</li> <li>• To prepare the electoral rolls, or the list of all the citizens eligible to vote was a challenging task.</li> <li>• Moreover, it was the first big test of democracy in a poor and illiterate country with narrow loyalties in terms of caste, religion, language etc.</li> <li>• Experiment of universal adult franchise at a very large scale in the world.</li> <li>• Preparation for the election was a mammoth exercise but done successfully.</li> <li>• Trained over one lakh officers for polling and the effort made was successful.</li> <li>• More than 50% of voters used their votes, which silenced the critics all over the world over this grand achievement, which was a landmark in history.</li> </ul> <p>(Evaluate as a whole)</p>	P-29/2	<b>2</b>	
<b>15.</b>	<b>How has the strengthening of international norms and international institutions helped India protect its security interests ? Explain.</b>		<b>2</b>	
<b>Ans.</b>	<p>(i) India's support to the cause of Asian solidarity, decolonisation, disarmament helped India to emerge as a leader of newly independent countries and its leadership of NAM strengthened its security. India promoted non-alignment to help carve out an area of peace. Recently being a leader in NAM India ratified the Kyoto Protocol to check global warming.</p> <p>(ii) India's continuous support to UN and its programmes made India an effective member of the UN which indirectly strengthened its security.</p> <p>(iii)(Or any other relevant point)</p>	P-77/2	<b>2</b>	
<b>16.</b>	<b>Highlight any two features of the First Five Year Plan.</b>		<b>2</b>	
<b>Ans.</b>	<p>Features of the First Five year plan are:-</p> <p>(i) It mainly addressed the agrarian sector including investment in dams and irrigation.</p> <p>(ii) It sought to get the country's economy out of the cycle of poverty.</p> <p>(iii)It aimed to raise the level of national income.</p> <p>(iv)It focused on Land Reforms.</p> <p>(Or any other relevant point) (Any Two)</p>	P-50/2	2x1=	<b>2</b>
<b>17.</b>	<b>Which political party won all the seats in the 1970 elections in East Pakistan and under whose leadership ?</b>		<b>2</b>	
<b>Ans.</b>	Awami league won all the seats in the 1970 elections in East Pakistan. It's leadership was of Sheikh Mujib-ur Rahman.	P-70/1	1+1=	<b>2</b>
<b>18.</b>	<b>Assess any two weaknesses of the coalition governments formed in India from 1989 to 1999.</b>		<b>2</b>	
<b>Ans.</b>	<p>Weakness of Coalitions governments :</p> <p>(i) Most of the coalition governments of this period were unstable and could not survive for more than a year.</p>	P-141, 143	2x1=	<b>2</b>



**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

	(ii) It was difficult for the government to take any hard decisions. (iii) Regional parties preferred their own interests as compared to the national interests. (iv) Most of the time was used to appease their allies/partners in coalition. (Or any other) (any two)			
<b>SECTION – C</b>				
<b>19.</b>	<b>Describe any two consequences of Chinese invasion of India in 1962.</b>		<b>4</b>	
<b>Ans.</b>	Consequences of China's invasion : (i) Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh and Ladakh in Jammu and Kashmir. (ii) It indented India's image at home and abroad. (iii) It alerted the Indian leaderships to the volatile situation in the North-East region of India. (iv) It exposed the military weakness of India. (v) Some of the top army commander either resigned or were retired. (vi) Nehru's close associate and the then Defence Minister V . Krishna Menon had to leave the cabinet. (vii) Nehru's stature suffered as he was severely criticized for his native assessment of the Chinese intentions and lack of military preparedness. (viii) For the first time, No Confidence Motion against his government was moved and debated in the Lok Sabha. (any two)		<b>2x2=</b>	<b>4</b>
<b>20.</b>	<b>Explain any two reasons for the disintegration of the Soviet Union.</b>		<b>4</b>	
<b>Ans.</b>	Reasons for the disintegration of the Soviet Union - (i) Internal weaknesses of the Soviet political and economic institutions. (ii) Economic stagnation for many years led to severe consumer shortages and a large section of Soviet society began to doubt and question the system. (iii) Ordinary people were alienated by slow and stifling administration, rampant corruption, the inability of the system to correct mistakes. This led to unwillingness to allow more openness in government and the centralisation of authority in a vast land. (iv) Maximum resources were used on nuclear weapons and other defence equipments (Or any other relevant point) (Any Two)			
<b>21.</b>	<b>Highlight any two causes of dispute and tension between India and Nepal.</b>		<b>4</b>	
	<b>OR</b>			
	<b>Highlight any two causes of conflict between India and Pakistan.</b>		<b>4</b>	
<b>Ans.</b>	The governments of India and Nepal have had trade related disputes in the past. (a)		<b>2x2=</b>	<b>4</b>

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

<p>(b)</p>	<p>(i) The Indian government has expressed its displeasure at the warm relationship between Nepal and China and at the Nepal government's inaction against anti-Indian elements.  (ii) The Mao movement in Nepal is also seen as a security threat by the Indian government, given the rise of Naxalites in Indian states from Bihar in the North to Andhra in the South.  (iii) Nepal accuses India of interfering in her internal affairs, having designs over its river waters and hydroelectricity and preventing Nepal from getting easier access to the sea through Indian territory.  (or any other relevant point) (Any two)</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>(i) Soon after the partition the two countries got embroiled in the conflict over the fate of Kashmir.  (ii) India's conflict with Pakistan is also our strategic issues like the control of Siachen Glacier and own the acquisition of Army.  iii) Both governments continue to be suspicious of each other Indian Government. Government has blamed Pakistan government for using strategy of low key violence by helping the Kashmiri militants with arms training and protection to carry out terrorist strikes against India. The Government of Pakistan ,in turn, blames the Indian government and it's security agencies for formenting trouble in the provinces of Sindh and Balochistan.  (iv ) Bitterness and hatred due to war of 1965 and 1971.  (v) India and Pakistan also have had problems over sharing of river water.  (vi) Growing relations between Pakistan and China is also a cause of conflict.  <span style="float: right;">(any two)</span></p>		<p>2x2=</p>	<p>4</p>
<p>22. (a)</p>	<p><b>Highlight any two causes of globalisation.</b></p>		<p>4</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>OR</b></p>			
<p>(b)</p>	<p><b>Highlight any two positive effects of globalisation.</b></p>		<p>4</p>	
<p><b>Ans.</b> (a)</p>	<p>Causes of globalization -  (i) The advanced communication technology, i.e. invention of the telegraph, telephone and the microchips, internet, smartphone etc.  (ii) Advanced means of transport helped the ideas, capital, commodities and people move in a quicker and wider way from one part of the world to another.  (iii)Facility of easy flow of commodities, people and capital from one place to another.  (iv)Interdependence of nations.</p>	<p>P-102/1</p>	<p>2x2=</p>	<p>4</p>



**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**


<b>(b)</b>	<p>(v) Policy of liberalisation.  (Or any other relevant point) <span style="float: right;">(Any Two)</span></p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Positive effects of globalization-</p> <p>(i) It enhances interconnectedness.  (ii) Facilitate transfer of knowledge and technology.  (iii) Increase the consumers' choices.  (iv) FDI in poor countries is easy.  (v) Increase in economic development.  (vi) Efficiency of state increases.  (vii) Cultural homogenisation increases.  (Or any other relevant point) <span style="float: right;">(Any Two)</span></p>	P-103-106/1	2x2=	4
<b>23.</b>	<b>Analyse the causes of armed struggle in Mizoram against India after 1959.</b>		4	
<b>Ans.</b>	<p>Causes :</p> <p>(i) Demand for a separate country which could not be accepted.  (ii) Some Mizos believed that they were never a part of British India and therefore they did not belong to the Indian Union.  (iii) Assam government failed to respond adequately to the great famine of 1959 in Mizoram.  (iv) MNF under the leadership of Laldenga started an armed campaign against India which led to rise of insurgency in Mizoram.  (Or any other relevant point) <span style="float: right;">(any two)</span></p>	P-127, II	2x2=	4
<b>SECTION – D</b>				
<b>24.</b>	<p><b>Read the following passage carefully and answer the questions that follow :</b>  <b>India is of the view that the major responsibility of curbing emission of greenhouse gases rests with the developed countries, which have accumulated emissions over a long period of time. India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world.</b></p> <p>(i) <b>India signed and ratified the Kyoto Protocol in :</b>  <b>(A) August 2000                      (B) August 2001</b>  <b>(C) August 2002                      (D) August 2003</b></p> <p>(ii) <b>Why were some developing countries exempted from the requirements of the Kyoto Protocol ?</b>  <b>(A) They were pioneers in developing eco-friendly technology.</b>  <b>(B) They were assisting some other countries to adopt clean technologies.</b>  <b>(C) They had already launched renewable energy programmes.</b>  <b>(D) Their contribution to emission of greenhouse gases was insignificant.</b></p> <p>(iii) <b>Where was the 'Earth Summit' held ?</b>  <b>(A) Paris                      (B) Rio de Janeiro</b>  <b>(C) Kyoto                      (D) Montreal</b></p> <p>(iv) <b>Which one of the following is an example of 'Global Commons' ?</b>  <b>(A) The Great Barrier Reef                      (B) The Grand Canyon</b>  <b>(C) The Outer Space                      (D) The Sahara Desert</b></p>		4x1 =	4



**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

<b>Ans.</b>	(i) (c) August 2002 (ii) (D) their contribution to emission of greenhouse gasses was insignificant. (iii) (B) Rio de Janerio (iv) (C) Outer space	P-89 /1	<b>4x1=</b>	<b>4</b>															
<b>25.</b>	<p><b>In the given political outline map of India (on page 17), four States have been marked as (A) (B) (C) and (D). Identify these States on the basis of the information given below and write their correct names in your answer-book along with the respective serial number of the information used and the concerned alphabets given in the map as per the following format :</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Serial number of the information used</th> <th style="padding: 5px;">Concerned alphabet given in the map</th> <th style="padding: 5px;">Name of the State</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">(i)</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(ii)</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(iii)</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(iv)</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table> <p>(i) The State to which the former Prime Minister Lal Bahadur Shastri belonged.            (ii) The State to which former Chief Minister S. Nijalingappa belonged.            (iii) The State where DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) came to power in 1967.            (iv) The State where the Congress Party did not get majority in 1967 Assembly elections.</p>	Serial number of the information used	Concerned alphabet given in the map	Name of the State	(i)			(ii)			(iii)			(iv)				<b>4 × 1 =</b>	<b>4</b>
Serial number of the information used	Concerned alphabet given in the map	Name of the State																	
(i)																			
(ii)																			
(iii)																			
(iv)																			

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**



**Ans.**

Serial number of the information used	Concerned alphabet given in the map	Name of the State
(i)	B	Uttar Pradesh
(ii)	A	Karnataka
(iii)	D	Tamil Nadu
(iv)	C	Rajasthan

**Note : The following questions are for the Visually Impaired Candidates only, in lieu of Q. No. 25 :**

(25.1) Name the state to which the former Chief Minister Karpoori Thakur belonged.

(25.2) Name the state to which the political party DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) belongs.

(25.3) Name the state to which the former Prime Minister Lal Bahadur Shastri belonged.

(25.4) Name the state to which the former President of India V.V. Giri belonged.


4 × 1  
= 4

For visually impaired candidates-  
 (25.1) Bihar  
 (25.2) Tamil Nadu

P- /2

4x1= 4

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

	(25.3) Uttar Pradesh (25.4) Andhra Pradesh			
26.	<p><b>Study the cartoon given below and answer the questions that follow :</b></p>  <p>(i) <b>Identify and name the leader who toppled the Janata Government.</b></p> <p>(ii) <b>Identify and name the Prime Minister of the Janata Party Government shown in the cartoon.</b></p> <p>(iii) <b>Highlight any two reasons for the defeat of the Janata Party in 1980.</b></p>		1+1+ 2=	4
<b>Ans.</b>	<p>Cartoons' Answer-</p> <p>(i) Indira Gandhi</p> <p>(ii) Morarji Desai</p> <p>(iii)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infighting in Janata Party</li> <li>• Charan Singh left Janata Party and became Prime Minister with the support of the Congress Party which later withdrew its support.</li> <li>• The failure of the Janata Party to provide a stable government.</li> </ul> <p style="text-align: right;">(Any Two)</p>	P- 107/ 2	1+1+2 =	4
	<p><b>Note : The following questions are for the Visually Impaired Candidates only, in lieu of Q. No. 26 :</b></p> <p>(26.1) <b>Highlight any two reasons for the defeat of the Congress Party in the general elections of 1977.</b></p> <p>(26.2) <b>Name the political party that won the general elections in 1977.</b></p> <p>(26.3) <b>Name the Prime Minister of India before the Congress Party won the elections in 1980.</b></p>		2+1+ 1=	4
	<p>For visually impaired candidates-</p> <p>26.1 Reasons of defeat-</p> <p>(i) Excesses done during Emergency</p> <p>(ii) Censorship of Press</p> <p>(iii) Negation of Fundamental Rights</p> <p>(iv) Whole of opposition was united against the Congress Party.</p> <p>(Or any other relevant point) <span style="float: right;">(Any Two)</span></p> <p>26.2 Janata Party</p> <p>26.3 Ch. Charan Singh</p>	P- 108/ 2	2+1+1 =	4
<b>SECTION – E</b>				



**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

<b>27.</b>				
<b>(a)</b>	<b>Describe any four major developments in Indian politics since 1989.</b>		<b>6</b>	
	<b>OR</b>			
<b>(b)</b>	<b>Describe any three issues on which a general consensus has emerged among most of the political parties of India.</b>		<b>6</b>	
<b>Ans.</b>				
<b>(a)</b>	Major development in Indian politics since 1989- (i) Defeat of Congress Party in the elections of 1989 marking the end of the Congress system. (ii) Mandal issue in national politics. (iii) The New Economic Policy- Liberalisation, Privatisation and Globalization (LPG). (iv) Ayodhya Dispute. (v) Assassination of Rajiv Gandhi. (or any other point)	P- 137- 139/ 2	4x1½ =	<b>6</b>
<b>(b)</b>	Or Issues of general consensus- (vi) Agreement on New Economic Policies. (vii) Acceptance of political and social clauses of the backward classes. (viii) Acceptance of role of state level parties in governance of the country. (ix) Emphasis on pragmatic consideration rather than ideologies. (Explain any three points.)	P-  153- 154/ 2	3x2=	<b>6</b>
	(Any four to be explained)			
<b>28.</b>				
<b>(a)</b>	<b>Analyse any four factors that make the European Union an influential regional organisation.</b>		<b>6</b>	
	<b>OR</b>			
<b>(b)</b>	<b>“ASEAN is rapidly growing into a very important regional organisation.” Justify the statement.</b>		<b>6</b>	
<b>Ans.</b>				
<b>(a)</b>	Factors- (i) The EU has evolved over time from an economic union to an increasingly political one. (ii) The EU has a common flag, anthem, founding date and currency which shows its solidarity and unity. It also has some form of a common foreign and security policy in its dealings with other nations. (iii) The EU is the world’s second biggest economy with a GDP of more than \$17 trillion in 2016, next to that of the USA. (iv) It functions as an important bloc in the WTO. (v) One of its members (France) is the permanent member of the UN Security Council. (vi) Its currency, the Euro, can pose a threat to the dominance of the US dollar. (vii) The combined armed forces of the EU are the second largest in the world. Its total spending on defense is second after the US.	P- 16- 18/1	4x1½ =	<b>6</b>

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

<b>(b)</b>	<p>(viii) It also works as a supranational organization, the EU is able to intervene in economic, political and social areas.          (Or any other relevant point) (Any Four)</p> <p style="text-align: center;"><b>or</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASEAN has little desire for supranational structures like the EU.</li> <li>• ASEAN celebrates its way of working known as the ‘ASEAN way’ which is a form of interaction that is informal, non-confrontational and cooperative.</li> <li>• ASEAN has broadened its objectives beyond the economic and social spheres.</li> <li>• It respects the sovereignty of member countries.</li> <li>• It has focussed on creating a Free Trade Area for investment, labor and service.</li> <li>• ASEAN is the only regional association in Asia that provides a political Forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns.</li> </ul> <p>(Or any other relevant point) (Evaluate as a whole) (Any Three)</p>	P-21-22/1	3x2=	<b>6</b>
<b>29.</b> <b>(a)</b>	<b>Describe any three challenges faced by India just after independence.</b>		<b>6</b>	
<b>(b)</b>	<b>Describe the events that lead to the merger of the princely state of Manipur into the Indian Union.</b>		<b>6</b>	
<b>Ans.</b> <b>(a)</b>	<p>Challenges faced by India :</p> <p>(i) To establish, maintain and deepen democracy in India.          (ii) To shape a nation that was united, yet accommodative of the diversity in our country.          (iii) To ensure development and wellbeing of the entire society.          (iv) To rehabilitate the refugees who came from Pakistan.          (or any other relevant point) (Any three)</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p>	P-4,5,I I	<b>3x2=</b>	<b>6</b>
<b>(b)</b>	<p>(i) A few days before independence, Maharaja of Manipur Bodh Chandra Singh, signed the Instrument of Accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained.          (ii) Under the pressure of public opinion Maharaja held elections in Manipur in June 1948 and state became a Constitutional Monarchy.          (iii) The Government of India succeeded in pressurising the Maharaja into signing Merger Agreement in September 1949, without consulting the popularly elected Legislative Assembly of Manipur.          (assess as a whole)</p>	P-18,II	<b>6</b>	
<b>30.</b> <b>(a)</b>	<b>Explain the grounds on the basis of which India seeks to become a permanent member of the UN Security Council.</b>		<b>6</b>	
<b>(b)</b>	<b>OR</b>		<b>6</b>	

**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior Secondary School Examination, 2024**  
**SUBJECT : POLITICAL SCIENCE (028) PAPER CODE NO:59/2/3**

	<b>Explain the three main complaints reflected in the resolution adopted by the UN General Assembly in 1992 to reform the UN Security Council.</b>			
<b>Ans.</b>				
<b>(a)</b>	<p>Grounds on the basis of which India seeks to become a permanent member of the UN Security Council-</p> <p>(i) India is the second most populous country in the world comprising almost <math>\frac{1}{5}</math> of the world population.</p> <p>(ii) India is the world's largest democracy.</p> <p>(iii) India has participated virtually in all of the initiatives of the UN.</p> <p>(iv) Its role in the UN peacekeeping efforts is a long and substantial one.</p> <p>(v) The country's economic emergence in the world stage is another factor that perhaps justifies India's claim to permanent seat.</p> <p>(vi) India has also made regular financial contributions to the UN and never faltered on its payments.</p> <p>(or any other relevant point) <span style="float: right;">(any four points)</span></p> <p style="text-align: center;">Or</p>		<b>4x1½ =</b>	<b>6</b>
<b>(b)</b>	<p>Complaints-</p> <p>(i) The Security Council no longer represents the contemporary political realities.</p> <p>(ii) Its decisions reflect only western values and interests and are dominated by a few powers.</p> <p>(iii) It lacks equitable representation.</p> <p style="text-align: right;">(To be explained )</p>		<b>3x2=</b>	<b>6</b>

